

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 2003 (चैत्र 8, 1925)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2003 (CHAITRA 8, 1925)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	485
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	257
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	361
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	483
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	1117
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3313
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	109
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और आयु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सप्तरक	*

*आकड़े प्राप्त नहीं हैं।

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	485	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	257	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	483
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	361	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1117
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations		PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations		PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3313
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills		PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	109
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)			

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च, 2003

सं० 6/11/समिति-I/2002—दिनांक 3 मार्च, 2003 (संख्या 3673) और 4 मार्च, 2003 (संख्या 3678) के बीच सभा समन्वय-भाग II में प्रकाशित निम्नलिखित परामर्श सामान्य जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किए जाते हैं :-

संख्या 3673

स्थायी समितियों के लिए सदस्यों का नामनिर्देशन

(एक) राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 27 फरवरी, 2003 से स्थायी समितियों के लिए, जैसा कि प्रत्येक समिति के सामने दर्शाया गया है, नामनिर्दिष्ट किया है :-

क्रमांक	समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम
(1)	गृह	श्री प्रमोद महाजन
(2)	रक्षा	श्री वेदप्रकाश पी० गोयल
(3)	विदेश	श्री के० जना कृष्णमूर्ति
(4)	रेल	श्री सुरेन्द्र लाठ

(दो) राज्य सभा के सभापति ने 27 फरवरी, 2003 से डा० विजय माल्या का नामनिर्देशन भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति से बदलकर रक्षा संबंधी समिति के लिए कर दिया है।

संख्या 3678

खाद्य, नागरिक पूति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के लिए एक सदस्य का नामनिर्देशन

अध्यक्ष ने श्री मानसिंह पटेल का नामनिर्देशन रक्षा संबंधी समिति से बदलकर खाद्य, नागरिक पूति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के लिए कर दिया है।

ब्रह्म दत्त, उप सचिव

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(अर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2003

संकल्प

सं० एफ० 5(1)-पी०डी०/2003—ग्राम कामगारों के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2003-2004 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अधिकारियों की कुल जमा रकमों पर 8% (आठ प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा। यह दर 1 अप्रैल, 200 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं -

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कामिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वी० एस० चौहान, उप सचिव (बजट)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च, 2003

संकल्प

सं० 12019/5/98-एफ० पी० पी०—यूरिया इकाईयों की लाभ की व्यवहार्य दर के साथ अति दक्ष फोस्टॉक के

उपयोग आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के मानकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार ने उर्वरक विभाग के दिनांक 30-1-2003 के पत्र संख्या 12019/5/98-एफ० पी० पी० के माध्यम से भारत सरकार के दिनांक 1 नवम्बर, 1977 के संकल्प सं० 166/24/77—एफ० डी (ए) द्वारा अधिसूचित प्रतिधारण मूल्य योजना का अधिक्रमण करते हुए यूरिया इकाईयों के लिये दिनांक 1 अप्रैल 2003 में एक नई मूल्य निर्धारण योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

2 सरकार ने नई मूल्य निर्धारण योजना के प्रशासन एवं संचालन हेतु उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ आई सी सी) का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। एफ आई सी सी की संरचना निम्नवत् होगी :—

अध्यक्ष

1. मन्त्रि, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।

सदस्य

2. मन्त्रि, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली।
3. मन्त्रि, कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. मन्त्रि, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. मन्त्रि, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, टैरिफ आयोग।
7. तथा 8. यूरिया उद्योग के दो प्रतिनिधि, जिनका नामांकन उर्वरक विभाग द्वारा किया जायेगा।

सदस्य सचिव

9. कार्यपालक निदेशक, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति, नई दिल्ली।
3. समिति का कार्य क्षेत्र और उसका कार्य निम्न प्रकार होगा :—

1. नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की उत्पादक इकाईयों के लिये भाड़ा दरों और अन्य सम्बद्ध मानकों सहित समूह रियायत दरों का निर्धारण करना।
2. लेखों का रख-रखाव तथा भुगतान करना व उर्वरक कम्पनियों से वसूली करना।
3. अंकेक्षण तथा अन्य तकनीकी कार्य करना।
4. लागत संबंधी उत्पादन और खपत आंकड़ों तथा अन्य सूचना का एकत्रण व आवधिक विश्लेषण करना।
5. रियायत दरों की आवधिक समीक्षा करना तथा रियायत दरों में, जहाँ आवश्यक हो, सरकार की पूर्व सहमति से समायोजन करना।

6. भारी आवधिकों के लिये रियायत दरों के निर्धारण हेतु आवश्यक जांच करना।

7. प्रतिधारण मूल्य योजना से संबंधित सामने आने वाले संदर्भों पर कार्यवाही करना।

8. सरकार द्वारा समिति को समय-समय पर सौंपे जाने वाले कार्य करना।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

5. समिति का अपना सचिवालय होगा और वह अपने कार्य के लिये स्वयं पद्धति तैयार करेगी। इस संकल्प के प्रयोजनार्थ एफ आई सी सी के मौजूदा सचिवालय को मान्यता दी जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघशासित प्रदेशों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुधीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

पीत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2003

संकल्प

सं०ई-11013/5/2002-हिन्दी—इस मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 2001 के संकल्प संख्या ई 11013/5/2000-हिन्दी के अनुक्रम में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य श्री महेश चन्द शर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) के स्थान पर डा० सी० नारायण रेड्डी, संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थानीय पता : 21, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001 और स्थायी पता : 48 फिल्म नगर, जुबली हिल्स, हैदराबाद को एतद्वारा दत्तकाल प्रभाव से इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की शेष अवधि तक गैर-सरकारी सदस्य नामित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा समिति के सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शिव रमन गौड़,

उप सचिव (एम०एम०/राजभाषा)

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 11th March 2003

No. 6/11/CI/2002—The following two paragraphs published in the Lok Sabha Bulletin—Part II dated 3rd March 2003 (No. 3673) and 4th March 2003 (No. 3678), are hereby published for general information :—

No. 3673

Nomination of Members to the Standing Committees

(i) The following members of Rajya Sabha have been nominated by the Chairman, Rajya Sabha to the Standing Committees as indicated against each Committee w. e. f. 27th February, 2003 :—

Sl. No.	Name of the Committee	Names of the Members nominated
1.	Home Affairs	Shri Pramod Mahajan
2.	Defence	Shri Vedprakash P. Goyal
3.	External Affairs	Shri K. Jana Krishnamurthy
4.	Railways	Shri Surendra Lath

(ii) The Chairman, Rajya Sabha, has also changed the nomination of Dr. Vijay Malviya from the Committee on Science & Technology, Environment & Forests to the Committee on Defence w.e.f. 27th February, 2003.

No. 3678

Nomination of a Member to the Committee on Food, Civil Supplies & Public Distribution

The Speaker has changed the nomination of Shri Man Singh Patel from the Committee on Defence to the Committee on Food, Civil Supplies & Public Distribution."

BRAHM DUTT, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 12th March 2003

RESOLUTION

No. F. 5(1)-PD/2003—It is announced for general information that during the year 2003-2004, accumulation at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8% (eight per cent) per annum. This rate will be in force during the

financial year beginning on 1-4-2003. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
 2. The Contributory Provident Fund (India)
 3. The All India Services Provident Fund.
 4. The State Railway Provident Fund.
 5. The General Provident Fund (Defence Services).
 6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
 7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
 8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
 9. The Defence Services Officers Provident Fund.
 10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be Published in the Gazette of India.

V. S. CHAUHAN
Dy. Secy. (Budget)MINISTRY OF CHEMICALS AND
FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 13th March 2003

RESOLUTION

No. 12019/5/98-FPP.—With a view to encourage efficiency parameters of international standards based on the usage of the most efficient feedstock, state-of-art technology alongwith viable rate of return to the urea units, the Government have, vide Department of Fertilizers' letter No. 12019/5/98-FPP dated 30-1-2003 decided to introduce a New Pricing Scheme for urea units w.e.f. 1st April, 2003 in supersession of the Retention Price Scheme notified by Government of India's Resolution No. 166/24/77-FD(A) dated 1st November, 1977.

2. The Government have decided to reconstitute the Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) to administer and operate the New Pricing Scheme. The FICC would consist of :

Chairman

1. Secretary, Department of Fertilizers, New Delhi.

Members

2. Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi.

3. Secretary, Department of Agriculture & Co-operation, Ministry of Agriculture, New Delhi.
4. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, New Delhi.
5. Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas, New Delhi.
6. Chairman, Tariff Commission.
- 7 & 8. Two representatives of Urea Industry to be nominated by the Department of Fertilizers.

Member Secretary

9. Executive Director, Fertilizers Industry Co-ordination Committee, New Delhi.
3. The scope and functions of the Committee would as hereunder :—
 1. To determine the group concession rates including freight rates and other related parameters for units manufacturing Nitrogenous fertilizers.
 2. To maintain accounts and to make payments to and to recover amounts from fertilizer companies.
 3. To undertake costing and other technical functions.
 4. To collect and analyse periodic production and consumption data and costs and other information.
 5. To review the concession rates periodically and to make adjustments in concession rates, wherever necessary, with the prior concurrence of the Government.
 6. To undertake the examination necessary for determining the concession rates for future periods.
 7. To deal with such references as may arise pertaining to the Retention Price Scheme.
 8. To undertake such other functions as the Government may entrust to the Committee from time to time.
4. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi.

5. The Committee shall have its own Secretariat and shall formulate its own procedure for the conduct of its business. The existing Secretariat of FICC will be recognised for the purposes of this Resolution.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administration, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats, and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUDHIR KRISHNA, Jt. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 11th March 2003

RESOLUTION

No. E-11013/5/2000-Hindi—In continuation of this Ministry's Resolution No. E-11013/5/2000-Hindi dated 9th April, 2001, Parliamentary Committee on Official Language has nominated Dr. C. Narayan Reddy, M. P., Rajya Sabha, local address: 21, Firozeshah Road, New Delhi-110001 and Permanent address: 48, Film Nagar, Jubli Hills, Hyderabad in place of Shri Mahesh Chand Sharma, M.P. (Rajya Sabha) and he is hereby nominated as non-official member of Hindi Salahakar Samiti of this Ministry with immediate effect for the residual term.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, all members of the Samiti and all Ministries/Departments of Govt. of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. R. GAUR, Dy. Secy. (M.M./O.L.)